


# AVACAYAM

by SOCIETY FOR CHILD DEVELOPMENT

SATURDAY

EDITOR: SIDDHARTHA



*“See their lives through our eyes.  
The stories that we share are  
based on real children.”*

Volume 4 | August Issue 2

## “Is the food still hot?”

It was a Thursday evening, and the train station had only a small crowd. A young boy stood by the parked train, watching passengers exit. His clothes were torn, and he had no shoes on his small, vulnerable feet...

“... and he just stood there, confused,” the social worker said, while the boy sat beside him, head down, radiating anger and disappointment.

“He’s deaf, and none of us know sign language. That’s why we brought him here.” The boy looks up. In sign language, I ask, “What’s your name?”... He burst into tears. I asked my assistant to bring him a soft drink. “Our founder suggests leaving him here for a few days to learn his name and background,” I told the social worker. “I’ll check with my supervisor,” he replied. The boy sat there, sobbing. I could imagine the chain of events that had led him here.

His father likely scolded him and left, leaving the boy desperate for his mother’s comfort. But his mother was busy. In his relentless quest to get her attentionhe first, clung to her leg like a baby monkey. When that didn’t work, he faked a limp. Clutching his knee, rolling around and wailing like he’d been shot. His mother barely glanced at him. he grabbed a stick and poked her, grinning every time she swatted him away. **NOTHING!**

**FRUSTRATED!** One last try, he sneaks off and releasing all the sheep, causing chaos as they scattered and bleated loudly. When his mother saw the mess, her patience snapped. She grabbed him and gave a swift whack across his face. Wide-eyed and shocked, he lay on the ground.In disbelief, he gets up and runs. Though she is clearly regretful, she is head strong. She goes back to work.

He runsas fast as he can till he reaches the train tracks as a train prepares to depart. Huffing, he begins to cry, his heart wanting to go back, but he his head strong. Vowed never to return, he jumps onto the train. That evening, as dinner cooks, the mother stands in the doorway, hoping to see her son on the horizon. Meanwhile, the boy watches the world pass by through the train window.

At that moment, my assistant walks in and hands him the cold drink, which he took, still sobbing. The social worker returned, confirming the approval. He mentioned coming back tomorrow for the paperwork. I nodded and approached the boy, extending my hand. Gulpng the cold drink, he takes my hand, and I led him toward the kitchen. It was just after lunch, the cook noticed us approaching.

“Is the food still hot?” I asked. She nodded in confirmation.

“Feed him, he needs his strength.  
This is the beginning of his new life.”



To Help children with disabilities,  
follow the link and donate.

**DONATE**  
RazorPay Link

**GIVE.DO**  
Donate Link

Society for Child Development

Registration number : S-22741 of 1992  
FCRA Certificate Available for Foreign Donations  
80G Certificate Available for Tax Exemption on  
Donations above ₹1000


# आवाकायम

## सोसाइटी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा

शनिवार

बाल विकास के लिए सोसायटी

संपादक: सिद्धार्थ



“हमारी आँखों से उनके जीवन को देखें,  
हम जो कहानियाँ साझा करते हैं, वे  
असली बच्चों पर आधारित हैं।”

आयतन 4 | अगस्त अंक 2

### “क्या खाना अभी भी गरम है?”

यह एक गुरुवार की शाम थी, और ट्रेन स्टेशन पर केवल एक छोटी सी भीड़ थी। एक छोटा लड़का खड़ी ट्रेन के पास खड़ा था, यात्रियों को बाहर आते हुए देख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, और उसके छोटे, कमज़ोर पैरों में ज़ूते भी नहीं थे...

“... और वह बस वहीं खड़ा था, प्रमित,” सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, जबकि लड़का उसके पास बैठा था, सिर झुकाए हुए, गुस्से और निराशा की मावना फैला रहा था।

“वह बहरा है, और हमें से कोई भी सांकेतिक भाषा नहीं जानता। इसी कारण हम उसे यहाँ ले आए हैं।”  
लड़का ऊपर देखता है। सांकेतिक भाषा में मैंने पूछा, “तुम्हारा नाम क्या है?”... वह रोने लगा।

मैंने अपने सहायक से कहा, कि उसे एक सॉफ्ट ड्रिंक लाकर दे। “हमारे संस्थापक ने सुझाव दिया है कि उसे यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ दें ताकि हम उसका नाम और पृष्ठभूमि जान सकें,” मैंने सामाजिक कार्यकर्ता से कहा। “मैं अपने पर्यवेक्षक से जांच करूंगा,” उसने जवाब दिया। लड़का वहीं बैठा रहा, रोता हुआ। मैं कल्पना कर सकता था कि उसे यहाँ लाने की श्रृंखला के घटनाक्रम क्या होंगे।

उसके पिता ने शायद उसे डांटा और फिर चले गए, जिससे लड़का अपनी माँ की सुकून की तलाश में बेताब हो गया। लेकिन उसकी माँ व्यस्त थी। उसकी लगातार कोशिशों में, उसने पहले उसकी टांग को एक छोटे बंदर की तरह पकड़ा। जब यह काम नहीं आया, तो उसने लंगड़ा दिखाने का नाटक किया। अपने घुटने को पकड़कर, घिसते हुए और ऐसे चिल्लाते हुए जैसे उसे गोली लगी हो। उसकी माँ ने उसे मुश्किल से ही देखा। उसने एक डंडी पकड़ी और उसे चिढ़ाने लगा, हर बार जब वह उसे हटा देती, तो वह मुस्कुराता। और कहता कुछ नहीं हुआ!

निराश! एक आखिरी प्रयास के तहत, उसने चुपके से सभी भेड़ों को आज्ञाद कर दिया, जिस वजह से अफरातफरी मच गई और भेड़ें जोर से “बा” लगीं। जब उसकी माँ ने गंदगी देखी, तो उसकी धैर्य की सीमा टूट गई। उसने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक जोर से थप्पड़ मारा। चौकस और हैरान होकर, वह ज़मीन पर लेट गया। विश्वास नहीं कर पाने की स्थिति में, वह उठ खड़ा हुआ और भाग गया। हालांकि वह स्पष्ट रूप से पछताती है, वह दृढ़ है। वह काम पर वापस चली जाती है।

वह जितना जल्दी हो सके भागता है, जब तक वह ट्रेन की पटरियों तक नहीं पहुँच जाता, जहाँ एक ट्रेन प्रस्थान की तैयारी कर रही होती है। हाँफते हुए, वह रोने लगता है, उसका दिल लौटने की इच्छा करता है, लेकिन वह दृढ़ है। न लौटने की कसम खाकर, वह ट्रेन में कूद जाता है। उस शाम, जब खाना पक रहा होता है, माँ दरवाजे पर खड़ी होती है, उम्मीद करती है कि वह अपने बेटे को क्षितिज पर देखे। इस बीच, लड़का ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता है, दुनिया को गुज़रते हुए। दोनों समय को पलटने की कामना कर रहे हैं।

उसी क्षण, मेरा सहायक आता है और उसे ठंडा पेय थमाता है, जिसे वह लेते हुए अभी भी रो रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता लौटे और मंजूरी की पुष्टि की। उन्होंने कल कागजी कार्यवाही के लिए वापस आने का उल्लेख किया। मैंने सिर हिलाया और लड़के की ओर बढ़ा, अपना हाथ बढ़ाया। ठंडा पेय गटकते हुए, उसने मेरा हाथ थामा और मैंने उसे रसोई की ओर ले जाना शुरू किया। दोपहर का खाना खा लिया गया था, रसोइया ने हमें करीब आते देखा।

“क्या खाना अभी भी गर्म है?” मैंने पूछा। उसने पुष्टि में सिर हिलाया।  
“उसे खिला दो, उसे अपनी ताकत की ज़रूरत है। यह उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत है।”

मदद करने के लिए लिंक को क्लिक करें और दान करें।

**DONATE**  
RazorPay Link

**GIVE.DO**  
Donate Link

Society for Child Development  
Registration number : S-22741 of 1992  
FCRA Certificate Available for Foreign Donations  
80G Certificate Available for Tax Exemption on  
Donations above ₹ 1000